

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		जुला. 26	जून. 20	जून. 27	जुला. 4	जुला. 11	जुला. 18	जुला. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	2466	18639	18898	17315	16732	16088	15002
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	9749	21671	18582	17761	16823	16781	17505
1.3 राज्य सरकारें	40315	46140	71291	80904	81477	87277	92777	71677
1.4 अन्य	115688	95885	96090	95120	97524	97045	97731	98093
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	51248	51017	49943	48673	50941	51612	54296
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	57730	55998	57055	54535	52998	51354	56692
2.3 राज्य सरकारें	11078	14922	18888	16888	16888	17888	17419	17460
2.4 अन्य	104994	119522	93886	92901	94692	91961	90934	80911
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	90700	71580	71571	73723	74980	75410	74597
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	137182	74466	76439	78576	76859	74963	74963
3.3 राज्य सरकारें	37389	38525	44898	45967	46328	46459	46563	47732
3.4 अन्य	162757	164118	160754	159789	154500	155860	157527	157340
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	175531	156490	155018	85981	142202	138198	184745
4.4 अन्य	572	1008	1297	428	229	2607	1638	1026
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती	790381	828188	779176	784059	781993	785823	789158	766268
खज़ाना बिल को छोड़कर)#.								

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं हैं, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।